



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अगस्त 01, 2025

संख्या 31

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	जुलाई 26	जुलाई 18	जुलाई 25	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3502885	3773617	3763757	-9860	260873
1.1 संचलन में नोट	3502874	3773600	3763742	-9858	260867
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	10	17	16	-2	5
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	976073	984796	918229	-66567	-57844
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8282	8037	7969	-67	-313
2.6 अन्य बैंक	54704	52329	52699	370	-2004
2.7 अन्य	662893	738722	832806	94083	169913
3 अन्य देयताएं	1723581	2206803	2249693	42890	526112
कुल देयताएं / आस्तियां	6928560	7764448	7825297	60850	896738
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4951223	5095199	5128041	32842	176817
2 सोना	483062	728042	741528	13485	258466
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1320373	1788867	1785639	-3228	465266
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	21239	26294	24026	-2269	2786
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	7161	951	1906	955	-5255
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	133254	103826	122443	18617	-10812
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	10183	19205	19652	447	9469

* डाटा अनतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जुलाई 25, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6040880	698192	48508	2703	328740	29866	453079	30807
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5095487	588926	32627	1316	244653	21368	181760	2049
1.2 स्वर्ण	741528	85704	13485	1206	73365	7528	258466	28009
1.3 विशेष आहरण अधिकार	162741	18809	1766	126	7452	640	10343	607
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	41125	4753	629	55	3270	330	2511	141

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जुलाई 25, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं (सीआरआर) = ₹ 963288 करोड़	2025													
	जुलाई 12	जुलाई 13	जुलाई 14	जुलाई 15	जुलाई 16	जुलाई 17	जुलाई 18	जुलाई 19	जुलाई 20	जुलाई 21	जुलाई 22	जुलाई 23	जुलाई 24	जुलाई 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	979108	974440	1004110	994174	960846	969528	991740	957237	959525	937144	944918	968805	949869	925312
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.6	101.2	104.2	103.2	99.7	100.6	103.0	99.4	99.6	97.3	98.1	100.6	98.6	96.1

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	जुलाई 11, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
			3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	341405	-29701	-17297	31991	31312	64232
1.2 बैंकों से उधार	95556	-5085	-45067	-16420	-58968	-41806
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	22524	-2222	2639	-7391	11403	-52566
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23325736	-99909	701945	745135	2146395	2148565
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.4	3.4	3.3	11.3	10.1
2.1.1 मांग	2802131	-270744	-53532	104082	208895	411809
2.1.2 मीयादी	20523605	170834	755477	641053	1937500	1736755
2.2 उधारियां	855278	5059	106835	-59971	97006	-29500
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	972734	-74083	-50999	-88898	83549	86305
3 रिज़र्व बैंक से उधार	1223	158	-214512	-310243	-13243	-6981
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1014740	-5414	24968	50452	75508	-31143
4.1 उपलब्ध नकदी	84541	-2130	4357	2667	-9693	-9249
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	930199	-3284	20611	47785	85201	-21895
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	257314	-16517	-12921	41513	-8472	71908
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	17552	-6490	-4050	-8286	-19138	9247
5.3 बैंकों को अग्रिम	29132	-2425	-6634	-10371	-2550	-12602
5.4 अन्य आस्तियां	69456	372	-2597	2103	25446	-43370
6 निवेश	6716248	19446	201088	18320	489891	408602
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.3	3.3	0.3	8.4	6.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6715694	19346	200974	18396	489584	409110
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	554	100	114	-76	308	-509
7 बैंक ऋण	18463163	-23036	379954	219191	2065789	1651045
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.1	2.3	1.2	14.0	9.8
7 क.1 खाद्य ऋण	58993	-5396	7182	22462	5959	28730
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18404170	-17641	372773	196729	2059830	1622315
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18123147	-23234	362579	213295	2006507	1626264
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	79128	-432	7248	4165	23959	11413
7 ख.3 भुनाए गए	224971	1126	11679	3912	40638	15935
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13732	-55	-871	-1389	-3034	-1808
7 ख.5 भुनाए गए	22185	-441	-680	-791	-2282	-759

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	जुलाई 26	जून 27	जुलाई 4	जुलाई 11	जुलाई 18	जुलाई 25
	1	3	4	5	6	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	5.07	4.35	..	4.35	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	79.33	78.91	..	79.15	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	53.14	28.66	..	29.42	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.79	28.59	..	28.79	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	28.84	-0.13	..	2.46	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	9.10/10.30	9.10/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.10/8.60	7.95/8.25	7.95/8.20	7.95/8.20	7.95/8.20	7.95/8.20
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.30	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50/2.75	2.50/2.75	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारतकित औसत)	6.59	5.29	5.31	5.32	5.35	5.55
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.71	5.41	5.37	5.39	5.39	5.39
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.82	5.54	5.50	5.54	5.54	5.53
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.84	5.57	5.55	5.58	5.59	5.57
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.98	6.33	6.33	6.33	6.31	6.43
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.73	85.56	85.39	85.85	86.20	86.52
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.86	100.20	100.60	100.29	100.16	101.73
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.11	1.65	1.39	1.39	1.55	1.81
3-माह	1.20	1.66	1.61	1.52	1.60	1.76
6-माह	1.43	1.79	1.73	1.70	1.74	1.85

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनक अवदूबर 13, 2023 से फारवर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	जुलाई 11	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28141286	-89169	-0.3	761227	3.1	854697	3.1	2403406	10.3	2440199	9.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3729016	6363	0.2	58617	1.7	98264	2.7	232221	7.2	260123	7.5
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2944924	-270452	-8.4	-53320	-2.1	104901	3.7	212060	9.1	411356	16.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21357214	173483	0.8	758496	4.0	654706	3.2	1941772	11.0	1750558	8.9
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	110133	1436	1.3	-2565	-2.7	-3174	-2.8	17352	23.3	18162	19.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8614205	94172	1.1	90793	1.2	103379	1.2	331658	4.5	919840	12.0
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1586327	72966		-111676		78221		-163378		504790	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7027878	21206	0.3	202470	3.2	25158	0.4	495036	8.1	415050	6.3
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19259766	-23606	-0.1	373347	2.2	191637	1.0	2091911	13.5	1683587	9.6
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	7965	-1065		-3299		-30281		7063		-3142	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19251801	-22541	-0.1	376646	2.2	221918	1.2	2084849	13.5	1686730	9.6
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6027804	6285563	-31690	-0.5	217891	3.9	257759	4.3	706395	13.9	500168	8.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	37652	0	0	634	1.9	1020	2.8	3141	10.2	3586	10.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6356801	6055899	128045	2.2	-78562	-1.4	-300902	-4.7	729699	15.7	666983	12.4
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2176784	8140	0.4	-71010	-4.0	29357	1.4	130338	8.2	457660	26.6

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	जुलाई 25	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4887934	-76322	-1.5	36018	0.8	58691	1.2	312139	7.2	220470	4.7
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3801393	-9858	-0.3	25719	0.7	76946	2.1	212618	6.4	264213	7.5
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	978898	-66264	-6.3	13610	1.3	-12590	-1.3	79420	8.3	-60161	-5.8
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	107642	-200	-0.2	-3312	-3.5	-5664	-5.0	20101	28.3	16418	18.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1502150	-101815		-132303		-5955		-136175		441240	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1478167	-99546		-146942		2707		-143506		438454	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-285680	21752		-97012		-166664		-14439		-142521	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-298063	17603		-93541		-140802		-20230		-143969	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5869680	46440	0.8	192964	3.7	318732	5.7	634084	13.2	435633	8.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	37652			874	2.6	1020	2.8	3158	10.1	3346	9.8
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2235868	42699	1.9	-71494	-4.0	88441	4.1	174488	11.3	517228	30.1

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुस्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जुलाई 21, 2025	-	-	-	-	10750	56852	361	-	-	-45741
जुलाई 22, 2025	-	-	-	-	13273	63745	2063	-	-	-48409
जुलाई 23, 2025	-	-	50001	-	820	78428	1829	-	-	-25778
जुलाई 24, 2025	-	-	1421	-	362	117991	-	-	-	-116208
जुलाई 25, 2025	-	-	-	125008	1906	174961	-104	-	-	-298167
जुलाई 26, 2025	-	-	-	-	484	119530	-	-	-	-119046
जुलाई 27, 2025	-	-	-	-	484	121441	-	-	-	-120957

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	मई	जून	मई	जून	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	187.7	190.2	193.0	194.2	0.6	1.1	2.1
1.1 ग्रामीण	189.4	192.2	194.3	195.5	0.6	0.8	1.7
1.2 शहरी	185.7	187.8	191.5	192.6	0.6	1.4	2.6
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.9	141.4	144.0	145.0	0.7	1.4	2.5
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	153.5	154.0	154.1	153.8	-0.2	-0.6	-0.1
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	188.1	192.3	184.3	185.8	0.8	0.2	-3.4
3.2 ईंधन और बिजली	150.1	146.9	146.7	143.0	-2.5	-6.0	-2.7
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.0	142.0	144.9	144.8	-0.1	0.1	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जुलाई 11, 2025	525254	18576	5.67 - 6.49
जुलाई 25, 2025	508452	18551	5.59 - 6.63

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जून 30, 2025	500001	58022	5.71 - 13.84
जुलाई 15, 2025	534009	79530	5.51 - 12.67

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जुलाई 26, 2024	जुलाई 18, 2025	जुलाई 25, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	17812	28444	29057
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	846	7685	1620
3 त्रिपक्षीय रेपो	693314	788486	682533
4 बाजार रेपो	566606	750243	610007
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3283	9722	9721

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जुलाई 25, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	15002	17505	71677	202277
182-दिवसीय	54296	56692	17460	209360
364-दिवसीय	74597	74963	47732	354632
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार – दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (जुलाई 25, 2025 तक)	2024-25 (जुलाई 26, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (जुलाई 25, 2025 तक)	2024-25 (जुलाई 26, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	485000	453000	1400697	349914	257454	1039275
2. राज्य सरकारें	269899	184704	1073310	184173	106041	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल द्वारा प्रकाशित।